

**माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ द्वारा
राजस्थान राज्य स्टेट हज कमेटी के राजस्थान हज मित्र एप का लोकार्पण**



माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ द्वारा राजस्थान राज्य स्टेट हज कमेटी के राजस्थान हज मित्र एप का लोकार्पण

डा० अरुण चतुर्वेदी, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग मीडिया को संबोधित करते हुए



डा० अरुण चतुर्वेदी, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, श्री अमीन पठान, चैयरमैन, राजस्थान स्टेट हज कमेटी एवं श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग हाजी दम्पति को कवर सूचना प्रपत्र देते हुए

जयपुर, दिनांक 04 जुलाई 2018 डा० अरुण चतुर्वेदी, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग राजस्थान स्टेट हज कमेटी के राजस्थान हज मित्र एप का लोकार्पण सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में किया गया।

इस अवसर पर मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि हज कमेटी के द्वारा राजस्थान हज मित्र एप एक नवाचार है। जिसके माध्यम से हज पर जाने वाले समस्त हजयों को सम्पुण जानकारी उनकी हथेली पर उपलब्ध होगी। उनकी यात्रा सहज और सुगम होगी। हज यात्री हज के दौरान हज से संबंधित सभी जानकारियां हज मित्र एप के माध्यम से तुरन्त प्राप्त कर सकेंगे। हज मित्र एप के माध्यम से हज के दौरान आने वाली कठिनाईयों का निराकरण एवं खादिम-उल-हुज्जाज से सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य हज कमेटी से सतत् सम्पर्क बनाए रख सकेगा।

चैयरमेन राजस्थान स्टेट हज कमेटी जनाब अमीन पठान ने बताया है कि हज यात्रियों के लिये राजस्थान हज मित्र एप के नायाब तौहफा है जिसके द्वारा उनको हज यात्रा के दौरान अनेक सुविधाएँ उपलब्ध होगी। हज यात्री द्वारा तत्काल अपने कवर नम्बर जारी होने की जानकारी, कुरा से संबंधित सूचना, चयनित/अचयनित की सूचना, चयनित हज यात्रियों की टीकाकरण एवं टैनिंग से संबंधित सूचना, हज फ्लाईट से संबंधित सूचना, मक्का/मदीना की रिहाईश से संबंधित सूचना एवं समय-समय में जारी हज से संबंधित दिशा-निर्देशों की सूचना प्राप्त कर सकेगा। हज के दौरान खादिम उल हुज्जाज से सम्पर्क कर विदेश में अपनी समस्याओं का समाधान कर पायेंगे।

हज एप गुगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर जा कर डाउनलोड किया जा सकता है (राजस्थान हज मित्र एप) ज्यादा जानकारी के लिए 0141-2634786 पर सम्पर्क करे।

कार्यक्रम में विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, निदेशक श्री कैलाश बैरवा, संयुक्त शासन सचिव, श्रीमती प्रतिभा पारीक, राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डा. महमूद अली खान, हज कमेटी के मेम्बर्स डा. तस्लीम बानो, श्री मुश्ताक अहमद, श्री मो०उमर चौहान, विभागीय अधिकारी एव डेवलपर मेसर्स (ट्रान्सपोर्ट इनफोटेक आगरा) के प्रतिनिधि श्री अभिषेक गर्ग और आकाश पारिया गोपाल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

Rajasthan Haj Mitr App.
Launched by Hon'ble Minister Dr Arun Chaturvedi, Minority Affairs & Waqf

Millions of Muslims visit to Makah in Saudi Arabia annually to perform Hajj, an Islamic pilgrimage ritual. Government provides various services and facilities to overcome difficulties that may be encountered by pilgrims. Currently, technology has gained increasing attention as a major means to provide services. In particular, mobile applications (apps) are contemporary technologies used providing various services.

Rajasthan Haj Mitr App. is an initiative taken by Rajasthan State Haj Committee towards providing services to Haj Pilgrims. App aims to provide necessary information to the pilgrims including Flight number, flight schedule, accommodation, Khadim-ul-Hujjaj etc.

A COMPREHENSIVE LIST OF FEATURES

- View Pilgrim Details
 - o Check using Cover No
 - o Check using Passport No
- Haj Guide
- News and Updates
- Do's & Don'ts
- FAQ
- Queries / Complaints
- Notifications / Circulars
- Downloads
 - o Flight Schedule
 - o Accommodation Details
 - o Khadim-ul-Hujjaj
- Around me
 - o Nearest Hospitals
 - o Nearest Mosque
 - o Nearest Restaurant
 - o Shopping Centre
 - o Nearest Pharmacy
 - o Bus Stops
 - o Railway Stations
 - o My Locations
- Photo Gallery
- About Us
- Contact Us
- Link to Consulate General of India (CGI) Jeddah
- Link to Haj Committee of India (HCOI)
- Report Generation
- Content Management System